



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 माघ 1945 (श10)  
(सं0 पटना 100) पटना, मंगलवार, 6 फरवरी 2024

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

19 जनवरी 2024

सं० 10/विविध-16-01/2024-21(10)—स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं० -638(10) दिनांक 13.11.2007 में निहित प्रावधान के आलोक में न्यूनतम मापदण्डों के अनुसार पूर्व में चिन्हित एवं स्वीकृत स्वास्थ्य संबंधी भवन को बनाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के द्वारा बिहार राज्यपाल के पदनाम से भूमि दान दिया गया है, तो इस परिस्थिति में सरकार द्वारा बनने वाले उक्त भवन का नाम दानकर्ता अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर किया जायेगा।

2— सिविल सर्जन, मधुबनी के पत्रांक-3690 दिनांक-04.12.2023 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार श्री राम प्रकाश साहू, पिता-स्व० उचित लाल साहू, ग्राम+पोस्ट-भगवतीपुर, वार्ड नं०-04, थाना-पण्डौल, जिला-मधुबनी द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवतीपुर, मधुबनी के निर्माण हेतु मौजा-भगवतीपुर, तौजी नं०-1700, थाना नं०-176 के खाता सं०-337 खेसरा-1103 में रकबा— लगभग 81 डिसिमिल (एक बीघा पाँच कट्ठा 18 धूर ) जमीन दान स्वरूप महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार के नाम निबंधित कराया गया है। जमीन दाता द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवतीपुर, प्रखंड-पण्डौल, जिला-मधुबनी का नामकरण बिहारी साहू स्वास्थ्य उपकेन्द्र, भगवतीपुर, प्रखंड-पण्डौल, मधुबनी करने का अनुरोध किया गया है।

3— उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवतीपुर, प्रखंड-पण्डौल, जिला-मधुबनी का नामकरण बिहारी साहू अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रखंड- भगवतीपुर, जिला- मधुबनी किया जाता है।

4— यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5— इसमें माननीय उपमुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुधीर कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 100-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>